

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 762 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर 2024 — अग्रहायण 8, शक 1946

समाज कल्याण विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 26 नवम्बर 2024

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-14/2012/26.— राज्य शासन एतद् द्वारा “तीरथ बरत योजना” नियम 2012 में निम्नानुसार संशोधन करता है : —

- नियम 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम “तीरथ बरत योजना” नियम 2012 के स्थान पर इन नियमों का संक्षिप्त नाम “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना” नियम, 2012 है, प्रतिस्थापित किया जाए,
- इन नियमों में जहां कहीं भी “तीरथ बरत योजना” का उल्लेख हो, के स्थान पर “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना” एवं तीरथ बरत के स्थान पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन प्रतिस्थापित किया जाए,
- नियम 2 में “एवं निःशक्तजनों” के स्थान पर “दिव्यांगजनों” प्रतिस्थापित किया जाए, उसके पश्चात “विधवाओं” एवं “परित्यक्त महिलाएं” अन्तःस्थापित किया जाए,
- इन नियमों में जहां कहीं भी “निःशक्तजनों” का उल्लेख हो, के स्थान पर “दिव्यांगजनों” प्रतिस्थापित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भुवनेश यादव, सचिव.